

# सप्लायर आचरण संहिता

ली एंड फंग (ट्रेडिंग) लि. की (ली एंड फंग) इनके ग्राहकों की ओर से गतिविधियां, विश्व भर में आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायरों) से सोर्सिंग पर आधारित हैं। हम कार्य की सुरक्षित परिस्थितियां विकसित करने के लिए, कर्मचारियों के लिए गरिमा और सम्मान का वातावरण बनाने के लिए, तथा जिम्मेदार पर्यावरणीय क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए हमारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाइ चैन) के साथ मिलकर काम करते हैं।

हमारी सप्लायर आचरण संहिता और इससे जुड़े मानकों में वे सिद्धांत और विधियां शामिल हैं जो हम अपने सप्लायरों से अपनाने की अपेक्षा करते हैं। यह संहिता, जो स्थानीय, राष्ट्रीय कानूनों/ विनियमों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मुख्य संधिपत्रों, तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरणीय मानकों पर आधारित है, ऐसे सप्लायरों से माल प्राप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है जो इन प्राविधानों को महत्त्व देते और अपने प्रचालनों में समावेशित करते हैं।

यद्यपि विभिन्न विभागों में सप्लायरों के कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति अलग-अलग होती है, लेकिन सप्लायर आचरण संहिता ली एंड फंग की सोर्सिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी कार्यस्थलों पर तथा साइट पर सम्बद्ध आवासीय इकाईयों पर लागू होती है।

## प्रबंधन प्रणालियां

- सप्लायर प्रबंधन जोखिमों तथा शिकायतों के प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रणालियां स्थापित करता है।

## स्वास्थ्य और सुरक्षा की विधियां

- लाइसेंस, परमिट और प्रमाणपत्र कानूनी तौर पर सही, पूर्ण, और अप-टू-डेट हैं। सभी नोटिसें कानूनी विनियमों के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उपयुक्त कर्मचारी जिम्मेदार है।
- सप्लायर ऐसी आपातकालीन और सुरक्षा पूर्वसावधानियां लागू करता और बनाए रखता है जो कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- सप्लायर, ऐसी प्राथमिक चिकित्सा व चिकित्सकीय इलाज सुविधा प्रदान करता है जो कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- सप्लायर कर्मचारियों तथा इकाईयों से जुड़ी दुर्घटनाओं की इस तरह रिपोर्ट, जाँच और समाधान करता है जो कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- निजी सुरक्षात्मक उपकरण नीतियां, प्रशिक्षण, प्राविधान, रखरखाव तथा उपयोग, कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- सीमित जगहों तथा भूमि के ऊपर और भूमिगत स्टोरेज (एएसटी और यूएसटी) संबंधी नीतियों और प्रशिक्षण की व्यवस्था है।
- रासायनिक और खतरनाक सामग्रियों का प्रबंधन, नीतियां, प्रशिक्षण, रखरखाव, स्टोरेज और उपयोग, कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- धूम्रपान, तथा खुली लपटों, आग या दहन वाली गतिविधियां, निर्धारित क्षेत्रों में निषिद्ध हैं।
- उपकरण सुरक्षा प्रबंधन, नीतियां, प्रशिक्षण और रखरखाव, कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- विजली वाले भागों और सिस्टमों का समुचित रखरखाव किया जाता है।
- ध्वनि स्तरों को कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
- सप्लायर, कार्यस्थल का इस प्रकार रखरखाव करते हुए प्रकाशित, हवादार और तापमान नियंत्रित रखता है जो कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- सप्लायर, कार्य परिवेश को साफ बनाए रखता है और पेयजल, आरामघर तथा स्नानघर की सुविधाएं इस तरह प्रदान करता है कि जो कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- खाना पकाने वाले क्षेत्र और बच्चों की देखभाल वाली सुविधाएं कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- इमारतें तथा निर्माण परमिट रखे गए हैं और सही हैं।
- सप्लायर, एगोनॉमिक्स जोखिम कार्यक्रम लागू करता है और एगोनॉमिक्स जागरूकता हेतु प्रशिक्षण दिलाता है।
- विश्रामगृहों की दशाएं तथा आपातकालीन और सुरक्षा पूर्वसावधानियां कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।

## श्रम विधियां

- बिज़नेस के लाइसेंस कानूनी तौर पर सही, वैध, तथा अप-टू-डेट हैं। सभी पोस्टिंग कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- नियुक्ति और बर्खास्तगी की सभी प्रक्रियाएं, कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं। व्यक्तियों की तस्करी के जोखिम कम करने के लिए सप्लायर कड़ी भर्ती विधियां लागू करता है।
- कर्मचारियों को मुआवजा और पेरोल के रिकॉर्ड का रखरखाव, कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर किया गया है।
- कर्मचारियों के लाभ, कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।
- कर्मचारियों के काम के घंटे तथा समय के रिकॉर्ड का रखरखाव कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर किया जाता है।
- बलपूर्वक, बंधुआ, कैद में, दास बनाकर, तथा कारागार श्रम निषिद्ध है।
- 15 वर्ष आयु से छोटे बच्चों को नियुक्त नहीं किया जाता है, अप्रेंटिस और ट्रेनी, कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर नियुक्त किए जाते हैं।
- दुर्व्यवहार, अत्याचार, उत्पीड़न, तथा अनुचित अनुशासनिक कार्रवाईयां निषिद्ध हैं।
- भेदभाव किए जाने का निषेध है।
- संगठन बनाने तथा सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार का सम्मान किया जाता है।

## पर्यावरणीय विधियां

- पर्यावरणीय प्रबंधन, नीतियां और पदस्थापनाएं (पोस्टिंग), कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप या उनसे बढ़कर हैं।
- सप्लायर, विपरीत पर्यावरणीय प्रभावों का न्यूनीकरण, अपशिष्ट में घटोत्तरी और प्रदूषण की रोकथाम करते हैं।

## जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिकता

- सप्लायर, अनुपालना के सत्यापन के लिए इकाई में निर्बाध पहुँच प्रदान करते हैं और चिन्हित अवहेलनाओं के सुधार हेतु प्रतिबद्ध हैं।
- सभी उपठेकेदारी और घरेलू कार्य वाली गतिविधियां, अवश्य प्रकटित की जानी चाहिए और फैक्टरी को इसके लिए ली एंड फंग तथा/या इनके ग्राहकों से लिखित अनुमति अवश्य प्राप्त करके रखनी चाहिए।
- जालसाजी, घूसखोरी, और ली एंड फंग के कर्मचारी या ली एंड फंग के नामित प्रतिनिधि को अनुचित रूप से प्रभावित करने का निषेध है।